



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 265]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 1980/आषाढ़ 5, 1902

No. 265]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 1980/ASADHA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 1980

का०शा० 463(अ).—उड़ीसा सरकार ने यह घोषणा की है कि तारीख 24 जून, 1980 जो निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी तारीख 17 जून, 1980 की अधिसूचना सं० 318/80(1) द्वारा उड़ीसा राज्य को सम्मिलित करने हुए, कनिष्ठ राज्यों के लिए राज्य सभा के द्विषष्टिक निर्वाचनों में नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख नियत की गई थी, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि की मृत्यु हो जाने के कारण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 के अधीन परकाय लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 21) की धारा 25 के अधीन एक लोक अवकाश का दिन होगा ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 39 के निबंधनों के अनुसार उक्त अधिसूचना में आवश्यक परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है ;

अतः, अब, संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन अन्तर निहित शक्तियों तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उमे ममर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 39 के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए, उक्त अधिसूचना के खण्ड (क) से (घ) को, केवल उड़ीसा राज्य के बारे में इस प्रकार से संशोधन करता है, अर्थात् :—

330 GI/80

नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख

25 जून, 1980
(बुधवार) ;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख

26 जून, 1980
(बृहस्पतिवार) ;

(ग) अभ्यर्थिताएँ वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख

28 जून, 1980
(शनिवार) ; और

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो,
मतदान होगा

5 जुलाई, 1980
(शनिवार)
[सं० 318/80]

आदेश से,
के० गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 1980

S.O. 463(E).—Whereas the Government of Orissa has declared the 24th June, 1980, which was fixed as the last date for filing nominations for the biennial elections to the Council of States for certain States including the State of Orissa by the Commission in its notification No. 318/80(1) dated the 17th June, 1980 issued under Section 39 of the Representation of the People Act, 1951, as a public holiday under Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (21 of 1881) on account of the death of Shri V. V. Giri, Ex-President of India ;

And where as it has become necessary to make necessary changes in the said notification in terms of the said Section 39 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of its inherent powers under article 324 of the Constitution, Section 39 of the Representation of the People Act, 1951 and Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in that behalf, the Election Commission hereby amends clauses (a) to (d) of the said notification only in respect of the State of Orissa as follows to give effect to the provisions of the said section 39 of the said Act.—

- (a) the 25th June, 1980 (Wednesday) as the last date for filing nominations;

- (b) the 26th June, 1980 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

- (c) the 28th June, 1980 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures; and

- (d) the 5th July, 1980 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

[No. 318/80]

By Order,
K. GANESAN, Secy.